

**CLASS : 12th (Sr. Secondary)**

**Code No. 252**

**Series : SS/Annual-2023**

रोल नं० 

--	--	--	--	--	--	--	--

## उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा संस्कृत व्याकरणम् भाग-2 (आर्ष पञ्चति गुरुकुल)

**Sub Code : 1203/SVS**

(Only for Fresh/Re-appear/Improvement/Additional Candidates)

समय : 3 घण्टे ]

[ पूर्णांक : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 4 तथा प्रश्न 7 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।
- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।
- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नं० के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर अन्य कुछ भी न लिखें और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान न लगाएँ।
- कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**निर्देश :- सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः।**

1. अधोलिखितेषु केषाऽच्चत् **षष्ठीं** सूत्राणामर्थोदाहरणानि लिखत -  $6 \times 2\frac{1}{2} = 15$
- (क) अणश्च
  - (ख) उन्देरिच्चादेः
  - (ग) वहेर्धच्च
  - (घ) रुहेश्च
  - (ङ) चक्षेःशिच्च
  - (च) तिजेदीर्घश्च
  - (छ) अर्तेश्च
  - (ज) सर्तेणिच्च
  - (झ) नौ दीर्घश्च
2. निम्नांकितेषु **पञ्चानां** पदानां व्युत्पत्तिं दर्शयत -  $5 \times 2 = 10$
- (क) गुरुः
  - (ख) मन्दिरम्
  - (ग) कुबेरः
  - (घ) कृषकः
  - (ङ) आपः
  - (च) लक्षणम्
  - (छ) सरयुः
  - (ज) लक्ष्मीः
  - (झ) पुष्कलम्
  - (ज) उच्चैः

( 3 )

252

3. अधस्तनेषु पञ्चानां पदानां सूत्रोल्लेखपूर्वकं सिद्धिं साधयत -

$5 \times 2 = 10$

- (क) विधुरः
- (ख) पतञ्जः
- (ग) तीर्थम्
- (घ) रजकः
- (ङ) स्वज्ञः
- (च) यूपः
- (छ) कश्मीरः
- (ज) मुखम्

4. अधस्तनेषु द्वयोः सूत्रयोः अग्रे पञ्च-पञ्च सूत्राणि लिखत -

$2 \times 5 = 10$

- (क) स्यन्देः सम्प्रसारणं धश्च।
- (ख) अमितभ्यो दीर्घश्च।

- (ग) स्थोणुः।
- (घ) कशेमुट् च।

5. अधोलिखितेषु केषाऽच्चत्र षष्ठ्यां सूत्राणामर्थमुदाहरणञ्च लिखत -

$6 \times 2\frac{1}{2} = 15$

- (क) सुप्रिङ्गन्तं पदम्।
- (ख) आदेशप्रत्ययोः।
- (ग) घेर्डिति।
- (घ) न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य।
- (ङ) संयोगान्तस्य लोपः।
- (च) सान्तमहतः संयोगस्य।
- (छ) हलि च।
- (ज) इदमोनः।
- (झ) त्यदादीनामः।

( 4 )

252

$2 \times 5 = 10$

6. अधोलिखितेषु **पञ्चाना'** ससूत्रं सिद्धिं साधयत -

- (क) पुरुषः
- (ख) सखायौ
- (ग) वायवे
- (घ) तिसृणाम्
- (ङ) विद्वान्
- (च) सर्वेषाम्
- (छ) वयम्
- (ज) पितरः

7. अतिलघूतरीयाः प्रश्नाः -

$10 \times 1 = 10$

- (क) उणादिकोषे कति सूत्राणि सन्ति ?
- (ख) 'कपोतः' इत्यत्र कः शब्दः कः प्रत्ययः ?
- (ग) 'गगनम्' इति पदं कस्य सूत्रस्योदाहरणम् ?

- (घ) प्रत्ययादौ शकारस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति ?
- (ङ) 'याडापः' इति सूत्रस्योदाहरणं लिखत।
- (च) 'अग्नयः' इति पदे गुणैकादेशः केन सूत्रेण भवति ?
- (छ) 'अष्टौ' इति पदे औकारादेशः केन सूत्रेण भवति ?
- (ज) 'शूनः' इति पदे कः शब्दः कश्च प्रत्ययः ?
- (झ) 'सर्वेषाम्' इति पदे सुडागमः केन सूत्रेण भवति ?
- (ज) 'किम्' इति शब्दस्य 'क' इति आदेशः कुत्र भवति ?

